

AGREEMENT NO:- 43/MMGSY(Sr)/SBP/2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

NAME OF WORK:- ANDABARI ROAD - TAYABPUR
DALUA TO CHOTA PUCCA MOLNA (TENDER NO:-

R.W.D(WD) Kishanganj - 2 ⁸⁵⁹⁵⁸ DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

MB NO:- 1122

MEASUREMENT BOOK

NAME OF AGENCY:- BEST WATER PROOFING CO

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापे पुस्त में
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो श्री राम प्रसाद
सहायक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य अवर प्रमण्डल, पौथीया
के नाम से निर्गत किया जाता है।

26/7/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रा० का० वि० कार्य अवर
किशनगंज

26/7/24

Sch. XLV—Form No. 134

R.W.D(WD)Kishnonganj-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1122

Name of Officer श्री राम प्रसाद (महापक)

अभियंता ग्रा० का० विभाग कार्य अवर पौथीया

Date of first entry

Date of last entry

1/4 an AIC Bill

Details of Measurement

Name for work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W- Andabain Road Tanabbar					
Dalua to chote Pucca					
Mulma ulu messy (C)					
ulu Pultra Bkula					
Any- Best water Pucca					
(Sukul Rahi)					
Date of Mt - 24.10.6.2020					
Date of Cptn - 23.10.6.2021					
Date of Emly - 16.9.2020					

(1) Setting out Pucca

do do

$$\begin{aligned}
 & 30 \times 30 = 900 \text{ m}^2 \\
 & - 3 \times 90 = 90 \text{ m}^2 \\
 & - 1 \times 20 = 20 \text{ m}^2 \\
 & \hline
 & 790 \text{ m}^2 \\
 & \approx 1.010 \text{ km}^2
 \end{aligned}$$

(2) Setting Pucca do Pucca

do do

$$\begin{aligned}
 & \text{Area of No. (1) is} \\
 & 1.010 \text{ km}^2
 \end{aligned}$$

(3) Chasing of Pucca

do do

$$\begin{aligned}
 & - 10 \times 3000 \times 2 \times 1.20 = 7200 \text{ m}^2 \\
 & - 20 \times 3000 \times 2 \times 1.20 = 14400 \text{ m}^2 \\
 & - 3 \times 3000 \times 2 \times 1.20 = 1800 \text{ m}^2 \\
 & \hline
 & 23400 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1000-10	0.465	0.877	100		87.70
1010	2.569	1.517	10		15.17
				16	16.87m ³
Delivered					621.13m ³
W.B.M. 25-11					266.79m ³
					678.95m ³
P.C.C.					183.60m ³
					495.35m ³
W.M. 70 ft. dia.					346.75m ³
Lat. by 1000m out					75.00m ³
Chm. 00 to 200 ft.					271.75m ³
Lat 1000 ft.					
(5) Paving					

Lat. 1000 ft.

$$\begin{aligned}
 & - 10 \times 3000 \times 4.90 \times 0.500 = 735.00 \text{ m}^3 \\
 & - 10 \times 3000 \times 5.50 \times 0.400 = 660.00 \text{ m}^3 \\
 & - 10 \times 3000 \times 6.00 \times 0.300 = 540.00 \text{ m}^3 \\
 & \quad \quad \quad 1935.00 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\text{Lat. 70 ft. dia.} = 1355.00 \text{ m}^3$$

(6) Paving 10-13 in Paver

Lat. 1000 ft.

$$\begin{aligned}
 & - 10 \times 3000 \times 4.05 \times 0.200 = 243.00 \text{ m}^3 \\
 & - 10 \times 3000 \times 4.05 \times 0.200 = 243.00 \text{ m}^3 \\
 & - 6 \times 3000 \times 3.75 \times 0.100 = 67.50 \text{ m}^3 \\
 & \quad \quad \quad 553.50 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Continuation

16-9-2020
70

Continuation

4 p.p. of C.V.

Abstract of Coll.

5

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Siding cut Bench made do do					
Qty m/s 1/1 P-1 re					
1.010/cm					
Qty 3966.731/cm — m					4006200
(2) Paving Paving do do.					
Qty m/s 2/1 P-1 re					
1.010/cm					
Qty 1821.121/cm — m					1839200
(3) Chy and siding cut Vegetation grass do do					

Qty m/s 3/1 P-1 re					
0.23149					
Qty 49496.701/149 — m					11384200
(4) Curbstone to sidewalk for Paving for 1000 m do					
do					
Qty m/s 4/1 A P-3 re					
75 cm 3					
Qty 175.321/m3 — m					13149200
(5) Curbstone to sidewalk for Paving for 100 m do					
do					
Qty m/s 4/1 P-3 re					
271.75 m3					
Qty 141.391/m3 — m					38423200

Continuation

68801200

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			BFu	68 801	200
(6) Puhk eulthun Shuler					
with apud meeting do					
do					
Qty whist N. (5) P-342					
135500m ³					
Qm 176.96/m ³ —				239 781	200
(7) Puhk u-S B in Puhk					
km do do					
Qty whist N. (6) P-342					
553.50m ³					
Qm 248408/m ³ —				1374938	200
				16 83 520	200

Aug 12. 105 — ~~11/11 202021~~ 200

Aug 14. Lumber cut (1) 11 16835 200

11 1902377 200

As per amount 0.054, (1) 951 200

11 1901426 200

11
169.200
200

Continuation